



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ 1935 (श0)

(सं0 पटना 113)

पटना, शुक्रवार, 24 जनवरी 2014

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

31 दिसम्बर 2013

सं0 07/नि. (विधि-11) विविध-60/2012-7289—चूँकि अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 5661 दिनांक 05.12.2013 द्वारा बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली, गुलजारबाग, पटना-7 (निबंधन संख्या— BR-00-00-00-FED-002-1997 दिनांक 04.09.1997) को विघटित करते हुए परिसमापन की विधिवत कार्यवाही के लिए अधिनियम की धारा 45(क) के तहत डा. एन. सरवन कुमार, जिला पदाधिकारी, पटना को तत्काल के प्रभाव से परिसमापक नियुक्त किया गया है;

और चूँकि डा. एन. सरवन कुमार, जिला पदाधिकारी, पटना —सह— परिसमापक, बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., पटना को परिसमापन की कार्यवाही के सुचारु रूप से संचालन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए सहायक परिसमापकों की नियुक्ति की आवश्यकता है ;

अतः सम्यक् विचारोपरान्त बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा— 45(क) के तहत श्री ललन शर्मा, उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना तथा श्री कामेश्वर ठाकुर, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, पटना को बैंक कर्मचारी स्वावलम्बी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सकरी गली, गुलजारबाग, पटना-7 (विघटित) का क्रमशः संयुक्त परिसमापक और सहायक परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

नियुक्त संयुक्त परिसमापक और सहायक परिसमापक, परिसमापन की कार्यवाही में परिसमापक द्वारा आवंटित कार्यों/दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

आदेश से,  
हुकुम सिंह मीणा,  
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 113-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>